

वार्षिक कारोबार योजना

ए. बैंक का प्रोफाइल

क्र. सं.	विवरण	पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को डेटा
1	बैंक का नाम और पता	
2	लाइसेंस संख्या और लाइसेंस की तारीख (लाइसेंस की प्रति संलग्न की जानी है)	
3	संचालन का क्षेत्र (बैंक के उपनियमों से संबंधित उद्धरण की एक प्रति संलग्न की जानी है)	
4	क्या बैंक में निर्वाचित निदेशक मंडल है?	
5	बैंक का प्रकार	अनुसूचित / गैर- अनुसूचित
6	बैंक टियर	टियर 1 / 2 / 3 / 4
7	मौजूदा शाखाओं की संख्या / विस्तार काउंटर (सीआईएसबीआई पोर्टल के अनुसार सूची संलग्न की जानी है)	
8	क्या सभी मौजूदा शाखाओं / ईसी / एटीएम / कार्यालयों आदि को सीआईएसबीआई पोर्टल पर रिपोर्ट किया गया है? (हां/नहीं)	
9.	किसी भी कारोबार के स्थान का विवरण (शाखा / ईसी / एटीएम / कार्यालय आदि) जिसके लिए रिज़र्व बैंक से बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के तहत वैध प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया गया है	

बी. शाखाएँ खोलने की कार्य योजना को अनुमोदन देने वाला बोर्ड संकल्प प्रारूप

बैंक का नाम:

1. शाखा विस्तार कार्यक्रम के लिए मध्यम अवधि की नीति: बैंक जमा और अग्रिमों के संदर्भ में अगले 3 वर्षों में कारोबार के अपेक्षित स्तर के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए अपनी शाखा विस्तार के लिए प्रस्तावित मध्यम अवधि की नीति का विवरण प्रस्तुत कर सकता है।

2. प्रस्तावित नई शाखाओं का विवरण

पते और पिन कोड के साथ केंद्र का नाम	केंद्र की जनसंख्या	जिला और राज्य का नाम	प्रस्तावित केंद्र के सदस्य (केवल वेतनभोगियों के बैंकों के लिए)

नोट: प्रस्तावित शाखा के कारणों में केंद्र पर बैंकिंग सुविधाओं की पर्याप्तता, 12 महीनों के भीतर कारोबार के प्रस्तावित स्थान पर कारोबार संभावनाओं (न्यूनतम कारोबार का अनुमान जो बैंक को करने की उम्मीद है) को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तावित शाखा के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (नीचे दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार), जिसमें क्षेत्र में संभावित उपलब्धियां, आय और व्यय का अनुमान और ब्रेक-ईवन की संभावित अवधि आदि शामिल है, को प्रस्तुत किया जा सकता है।

केंद्र और जिले का नाम	केंद्र की जनसंख्या	केंद्र पर बैंक शाखाओं की संख्या	सेवा की जाने वाली अपेक्षित जनसंख्या	जमा			अग्रिम		
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

अनुमानित आय			अनुमानित व्यय			लाभ / हानि		
प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

3. क्या किसी वर्तमान निदेशक और / या उनके परिवार के सदस्यों का बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले / उपयोग करने के लिए प्रस्तावित पट्टे / किराए / अधिग्रहीत परिसरों में कोई हित है। यदि हां, तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है (आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शीट संलग्न करें)।

4. पिछले तीन वार्षिक कारोबार योजनाओं के तहत प्रस्तावित और खोली गई शाखाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष	बैंक द्वारा प्रस्तावित शाखाएँ	रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित शाखाएँ	निर्धारित समय के भीतर चालू की गई शाखाएं	निर्धारित समय के भीतर चालू नहीं की गई शाखाओं का विवरण *

* कृपया निर्धारित समय के भीतर अनुमोदित शाखाओं को न खोलने के कारण और इस मामले पर रिज़र्व बैंक के साथ संचार की एक प्रति प्रस्तुत करें, यदि कोई हो।

5. पिछले दो वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वचालित मार्ग के तहत प्रस्तावित और खोली गई शाखाओं का विवरण।

वित्तीय वर्ष	शाखा का नाम	शाखा का पूरा पता	शाखा खोलने की दिनांक	सीआईएसबीआई पोर्टल पर रिपोर्टिंग की तारीख

सी. शाखाओं के आवंटन के लिए प्रति शाखा निवल मालियत के संदर्भ में हेड रूम का निर्धारण करने के लिए कदम

	शाखाओं की संख्या	[करोड़ रूपए में]	
31 मार्च 20XX को निवल मालियत *		XX	a
31 मार्च को शाखाओं की संख्या	XX	x	x
जोड़े: आवंटित लेकिन अभी तक नहीं खोली गई शाखाओं की संख्या	XX	y	y
कुल (x+y)	XX	b	b
उपयोग की गई हेडरूम पूंजी @प्रति शाखा ₹ 2 करोड़ (b x 2)		XX	c
अगले वित्त वर्ष के दौरान शाखाओं के आवंटन के लिए उपलब्ध हेडरूम (ए-सी)		XX	d
प्रस्तावित शाखाओं की संख्या	XX		z
प्रस्तावित शाखाओं के आवंटन के बाद उपलब्ध हेडरूम @ प्रति शाखा ₹ 2 करोड़ [d- (z x 2)]		XX	s

* नवीनतम उपलब्ध आकलित / लेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार